

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette
 असाधारण
 EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169]	दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 10, 2018/श्रावण 19, 1940	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 598
No. 169]	DELHI, FRIDAY, AUGUST 10, 2018/SHRAVANA 19, 1940	[N.C.T.D. No. 598

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय जिलाधिकारी (पूर्वी जिला)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2018

फा. सं. डी.एम/एस.डी.एम(मुख्यालय)/सड़क सुरक्षा/2018/401-414.— 01. जबकि किसी भी नियत स्थान पर किसी भी समय खड़े होने वाले आटो रिक्शा की संख्या को नियमित करने के लिए स्टैंड निर्धारण की तुरन्त आवश्यकता है ताकि यातायात में बाधा नहीं हो और जनता को असुविधा न हो।

(02) अतः जबकि पूर्वी जिले के क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों में “रूको और चलो” के लिए स्टैंड का स्थान निर्धारित करना आवश्यक है तथा पूर्वी दिल्ली नगर निगम व दिल्ली यातायात पुलिस से परामर्श करने के पश्चात् मैं, के. महेश, जिलाधिकारी (पूर्वी), दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 के नियम 76 के उप-नियम 1(क) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा अधोलिखित स्थानों को एक समय में पांच आटो रिक्शा हेतु “रूको और चलो” के लिए स्टैंड घोषित करता हूँ।

विधानसभा क्षेत्र-55 (त्रिलोक पुरी)		
क्र.सं.	स्थान	जीपीएस निर्देशांक
1	खुदीराम बोस मार्ग, चौधरी अमीचन्द चौक, मयूर विहार फेस-1	अक्षांश- 28.604927 देशान्तर- 77.296618
2	नजदीक समाचार अपार्टमेन्ट, ऑपोजिट अमेटी पब्लिक स्कूल	अक्षांश- 28.595141 देशान्तर- 77.297971
3	वसुन्धरा इन्क्लेव, नजदीक नोयडा चौक	अक्षांश- 28.600317

		देशान्तर— 77.315416
4	त्रिलोक पुरी बस स्टैण्ड 307, मयूर विहार फेस-3 मोड़	अक्षांश— 28.605003 देशान्तर— 77.305691
5	त्रिलोक पुरी, ब्लॉक-26 चौक	अक्षांश— 28.608064 देशान्तर— 77.305412
6	त्रिलोक पुरी, ब्लॉक-13 बस स्टैण्ड	अक्षांश— 28.612597 देशान्तर— 77.307368
7	मयूर विहार फेस-1, पॉकेट-1, मैन गेट	अक्षांश— 28.606529 देशान्तर— 77.296733
8	मयूर विहार फेस-1, पॉकेट-2 नम्बर गेट	अक्षांश— 28.611524 देशान्तर— 77.301876
9	मयूर विहार फेस-1, नजदीक एलकॉन पब्लिक स्कूल	अक्षांश— 28.608193 देशान्तर— 77.290373
10	मयूर विहार फेस-1, दिल्ली पुलिस अपार्टमेन्ट, नजदीक अक्षरधाम	अक्षांश— 28.611544 देशान्तर— 77.287555
11	न्यू अ गोक नगर मेट्रो स्टेशन	अक्षांश— 28.588969 देशान्तर— 77.302164
12	न्यू अ गोक नगर, ईस्ट एण्ड अपार्टमेन्ट	अक्षांश— 28.589078 देशान्तर— 77.304389
13	वसुन्धरा इन्क्लेव, नजदीक दामेरी पब्लिक स्कूल	अक्षांश— 28.598413 देशान्तर— 77.311551
14	मयूर विहार फेस-3, नजदीक भारती पब्लिक स्कूल चौक	अक्षांश— 28.605606 देशान्तर— 77.333319
15	मयूर विहार फेस-3, नजदीक खोड़ा	अक्षांश— 28.614943 देशान्तर— 77.341326
विधानसभा क्षेत्र-56 (कोण्डली)		
1	पुराना ऑटो स्टैण्ड, नजदीक रियान पब्लिक स्कूल, मयूर विहार फेस-3	अक्षांश— 28.613821 देशान्तर— 77.337156
2	ऑटो स्टैण्ड, ओल्ड कोण्डली गाँव	अक्षांश— 28.614257 देशान्तर— 77.326492
3	ऑटो स्टैण्ड न्यू एम.आई.जी. एण्ड एस.एफ.एस. (डी-ब्लॉक), मयूर विहार फेस-3	अक्षांश— 28.608904 देशान्तर— 77.338048
4	ऑटो स्टैण्ड ए-1, ए-2 चौक, मयूर विहार फेस-3	अक्षांश— 28.609352 देशान्तर— 77.337756
5	ऑटो स्टैण्ड पेपर मार्केट, सीएनजी पम्प, मयूर विहार फेस-3	अक्षांश— 28.619138 देशान्तर— 77.341498
6	ऑटो स्टैण्ड, इन्दरा चौक, नजदीक कोण्डली मयूर विहार फेस-3	अक्षांश— 28.603266 देशान्तर— 77.329771
7	ऑटो स्टैण्ड, धर्म गीला कैंसर हॉस्पिटल और अनुसंधान केन्द्र के सामने, वसुन्धरा इन्क्लेव	अक्षांश— 28.602427 देशान्तर— 77.313409
8	ऑटो स्टैण्ड नजदीक भारती पब्लिक स्कूल, न्यू कोण्डली मयूर विहार फेस-3	अक्षांश— 28.605606 देशान्तर— 77.333319
9	ऑटो स्टैण्ड, भाहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज फोर वीमेन, वसुन्धरा इन्क्लेव	अक्षांश— 28.599912 देशान्तर— 77.322395
10	ऑटो स्टैण्ड, ऑपोजिट प्लाजा मार्केट, वसुन्धरा इन्क्लेव	अक्षांश— 28.600499 देशान्तर— 77.316185
11	ऑटो स्टैण्ड, ऑपोजिट मैन बस स्टैण्ड, कल्याण पुरी	अक्षांश— 28.617149 देशान्तर— 77.317407
12	ऑटो स्टैण्ड, एट डिलक्स अपार्टमेन्ट, वसुन्धरा इन्क्लेव	अक्षांश— 28.601207 देशान्तर— 77.314407
विधानसभा क्षेत्र-57 (पटपड़गंज)		
1	सद्भावना अपार्टमेन्ट, मण्डालवली फाजलपुर, नाला चौक	अक्षांश— 28.622619 देशान्तर— 77.289898
2	पश्चिमी विनोद नगर, मंगलम चौक, नजदीक पी.डब्ल्यू.डी. ऑफिस, नरवाना रोड	अक्षांश— 28.622619 देशान्तर— 77.295732
3	खिचड़ी पुर के नीचे गुरुद्वारा, नजदीक पी.एन.बी. एटीएम	अक्षांश— 28.624068

		देशान्तर— 77.309438
4	खिचड़ी पुर नाला नं. 8, ने नल हाईवे नं. 24	अक्षांश— 28.625213 देशान्तर— 77.319538
5	हिन्दुस्तान अपार्टमेंट, मयूर विहार फेस-1, नजदीक िव मन्दिर	अक्षांश— 28.606527 देशान्तर— 77.28847
6	मयूर विहार फेस-1, मेट्रो स्टे न नजदीक पॉकेट नं. 4 एण्ड गेट नं. 2	अक्षांश— 28.606386 देशान्तर— 77.300928
7	पाण्डव नगर, नजदीक पी.डब्ल्यू.डी. ऑफिस, संजय झील अण्डरब्रिज, कृष्णा मोटर ट्रेनिंग स्कूल	अक्षांश— 28.616716 देशान्तर— 77.287889
विधानसभा क्षेत्र-58 (लक्ष्मी नगर)		
1	ऑटो स्टैण्ड, स्कूल ब्लॉक नजदीक बस स्टैण्ड	अक्षांश— 28.627124 देशान्तर— 77.279554
2	ऑटो स्टैण्ड, गणे ा चौक, साउथ गणे ा नगर मण्डावली	अक्षांश— 28.621754 देशान्तर— 77.284741
3	ऑटो स्टैण्ड, नजदीक िव मन्दिर, मण्डावली फाटक	अक्षांश— 28.625756 देशान्तर— 77.286106
विधानसभा क्षेत्र-59 (विश्वास नगर)		
1	डी.डी.ए. मार्केट, गाजीपुर गाँव, नजदीक ताज अपार्टमेंट	अक्षांश— 28.630561 देशान्तर— 77.316789
2	हसनपुर गाँव बस स्टैण्ड, नजदीक भीतला माता मन्दिर	अक्षांश— 28.635219 देशान्तर— 77.311793
3	डी.डी.ए. पार्क, पंच महल अपार्टमेंट, नरवाना रोड	अक्षांश— 28.626702 देशान्तर— 77.309829
4	बाल्को अपार्टमेंट, आई.पी. एक्स्टें न	अक्षांश— 28.630783 देशान्तर— 77.306547
विधानसभा क्षेत्र-60 (कृष्णा नगर)		
1	गीता कॉलोनी 10 ब्लॉक, नजदीक सिलाई कढ़ाई केन्द्र	अक्षांश— 28.65629321560580 देशान्तर— 77.26725071668625
2	चाचा नेहरु बाल चिकित्सालय के सामने	अक्षांश— 28.525564017292 देशान्तर— 77.2693971544504
3	ताज इन्क्लेव के सामने	अक्षांश— 28.64972920950532 देशान्तर— 77.27012168616056
4	नजदीक एस.डी.एम ऑफिस समुदाय भवन के सामने, न्यू लाहौर, भास्त्री नगर, दिल्ली	अक्षांश— 28.64367707310783 देशान्तर— 77.2706480696797
5	भास्त्री नगर, सण्डे मार्केट नजदीक गीता अपार्टमेंट एण्ड कंचन अपार्टमेंट	अक्षांश— 28.64683397269633 देशान्तर— 77.27475956082344

03). और जबकि, यह आदेश शासकीय राजपत्र में आम जनता की जानकारी के लिए और इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर एक प्रति प्रदर्शित करके प्रकाशित किया जाएगा।

04). और जबकि, संबंधित नागरिक एजेंसी और सड़क रखरखाव एजेंसी नामित स्थानों को इंगित करने वाले साइन बोर्ड बनाएगी और एक समय में पांच ऑटो रिक्शा के लिए “रुको और चलो” के लिए ऑटो स्टैंड के रूप में उचित चिह्न भी लगाएगी।

05). अब इसलिए, यह आदेश 01.08.2018 से लागू होगा।

01 अगस्त, 2018 को मेरे हस्ताक्षर और मोहर लगाकर जारी किया जाता है।

के. महेश, जिलाधिकारी (पूर्वी)

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, DISTRICT EAST NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2018

F. No. DM/SDM(HQ)/ Road Safety/2018/401-414.— 1. Whereas, there is an urgent need of stands to regulate the number of auto-rickshaws at a given time, on a particular location, without obstructing the vehicular movement and for the convenience of the public at large;

02. And whereas, it is necessary to designate sites for stands in the area falling under the jurisdiction of District East for "Halt & Go" and after consultation with East Delhi Municipal Corporation & Delhi Traffic Police, I. K. Mahesh, District Magistrate (East), in exercise of the powers conferred upon the undersigned under Sub-rule 1(a) of Rule 76 of Delhi Motor Vehicle Rules, 1993, do hereby declare the following sites mentioned here under as auto stands for "Halt & Go" meant for five auto rickshaws at a time:

Assembly Constituency-55 (TRILOK PURI)		
S.No.	Place	GPS Coordinate
1.	Khudiram Bose Marg, Chaudhary Ami Chand Chowk, Mayur Vihar Phase-I	Latitude=28.604927 Longitude=77.296618
2.	Near Samachar Apartments, Opposite Amity Public School	Latitude=28.595141 Longitude=77.297971
3.	Vasundhara Enclave, Near Noida Chowk	Latitude=28.600317 Longitude=77.315416
4.	Trilok Puri Bus Stand 307, Mayur Vihar Phase-III Mord	Latitude=28.605003 Longitude=77.305691
5.	Trilok Puri, Block-26 Chowk	Latitude=28.608064 Longitude=77.305412
6.	Trilok Puri, Block-13 Bus Stand	Latitude=28.612597 Longitude=77.307368
7.	Mayur Vihar Phase-I, Pocket-I, Main Gate	Latitude=28.606529 Longitude=77.296733
8.	Mayur Vihar Phase-I, Pocket-II Number Gate	Latitude=28.611524 Longitude=77.301876
9.	Mayur Vihar Phase-I, Near Ahlcon Public School	Latitude=28.608193 Longitude=77.290373
10.	Mayur Vihar Phase-I, Delhi Police Apartments, Near Akshardham	Latitude=28.611544 Longitude=77.287555
11.	New Ashok Nagar Metro Station	Latitude=28.588969 Longitude=77.302164
12.	New Ashok Nagar, East End Apartments	Latitude=28.589078 Longitude=77.304389
13.	Vasundhara Enclave, Near Dashmesh Public School	Latitude=28.598413 Longitude=77.311551
14.	Mayur Vihar Phase-III, Near Bharti Public School Chowk	Latitude=28.605606 Longitude=77.333319
15.	Mayur Vihar Phase-III, Near Khora	Latitude=28.614943 Longitude=77.341326
Assembly Constituency-56 (Kondli)		
1.	Old Auto Stand, Near Ryan Public School, Mayur Vihar Phase-III	Latitude=28.613821 Longitude=77.337156
2.	Auto Stand, Old Kondli Village	Latitude=28.614257 Longitude=77.326492
3.	Auto Stand at New MIG & SFS (D-Block), Mayur Vihar Phase-III	Latitude=28.608904 Longitude=77.338048
4.	Auto Stand at A-1, A-2 Chowk, Mayur Vihar Phase-III	Latitude=28.609352 Longitude=77.337756
5.	Auto Stand, Paper Market, CNG Pump, Mayur Vihar Phase-III	Latitude=28.619138 Longitude=77.341498
6.	Auto Stand, Indira Chowk, Near Kondli Mayur Vihar Phase-III	Latitude=28.603266

		Longitude=77.329771
7.	Auto Stand, Opposite Dharamshila Cancer Hospital and Research Centre, Vasundhara Enclave	Latitude=28.602427 Longitude=77.313409
8.	Auto Stand near Bharti Public School, New Kondli, Mayur Vihar Phase-III	Latitude=28.605606 Longitude=77.333319
9.	Auto Stand Opposite Shahid Rajguru College of Applied Sciences for Women, Vasundhara Enclave	Latitude=28.599912 Longitude=77.322395
10.	Auto Stand, Opposite Plaza Market, Vasundhara Enclave	Latitude=28.600499 Longitude=77.316185
11.	Auto Stand, Opposite Main Bus Stand, Kalyan Puri	Latitude=28.617149 Longitude=77.317407
12.	Auto Stand at Deluxe Apartments, Vasundhara Enclave.	Latitude=28.601207 Longitude=77.314407
Assembly Constituency-57 (Patparganj)		
1.	Sadbhawna Apartments, Mandawali Fazalpur, Nala Chowk	Latitude=28.622619 Longitude=77.289898
2.	West Vinod Nagar, Mangalam Chowk, Near PWD Office Narwana Road	Latitude=28.622619 Longitude=77.295732
3.	Khichripur ke Niche Gurudwara, Near PNB ATM	Latitude=28.624068 Longitude=77.309438
4.	Khichripur Nala No.08, National Highway No.24	Latitude=28.625213 Longitude=77.319538
5.	Hindustan Apartments, Mayur Vihar Phase-I, Near Shiv Mandir	Latitude=28.606527 Longitude=77.28847
6.	Mayur Vihar Phase-I, Metro Station Near Pocket No.04 and Gate No.02	Latitude=28.606386 Longitude=77.300928
7.	Pandav Nagar, Near PWD Office, Sanjay Jheel under Bridge, Krishna Motor Training School	Latitude=28.616716 Longitude=77.287889
Assembly Constituency-58 (Laxmi Nagar)		
1.	Auto Stand, School Block, Near Bus Stand	Latitude=28.627124 Longitude=77.279554
2.	Auto Stand, Ganesh Chowk, South Ganesh Nagar, Mandawali	Latitude=28.621754 Longitude=77.284741
3.	Auto Stand, Near Shiv Mandir, Mandawali Fatak	Latitude=28.625756 Longitude=77.286106
Assembly Constituency-59 (Vishwas Nagar)		
1.	DDA Market, Ghazipur Gaon, Near Taj Apartments	Latitude=28.630561 Longitude=77.316789
2.	Hasanpur Gaon Bus Stand Near, Sitla Mata Mandir	Latitude=28.635219 Longitude=77.311793
3.	DDA Park, Panch Mahal Apartments Narwana Road	Latitude=28.626702 Longitude=77.309829
4.	Balco Apartments, I.P. Extension	Latitude=28.630783 Longitude=77.306547
Assembly Constituency-60 (Krishna Nagar)		

1.	Geeta Colony 10 Block, Near Silai-Kadai Kendra	Latitude=28.65629321560580 Longitude=77.26725071668625
2.	In front of Chacha Nehru Bal Chikitsalaya	Latitude=28.525564017292 Longitude=77.2693971544504
3.	In front of Taj Enclave	Latitude=28.64972920950532 Longitude=77.27012168616056
4.	Near SDM Court in front of Samudai Bhawan, New Lahore Shastri Nagar, Delhi.	Latitude=28.64367707310783 Longitude=77.2706480696797
5.	Shastri Nagar, Sunday Market Near Geeta Apartments & Kanchan Apartments	Latitude=28.64683397269633 Longitude=77.27475956082344

03. And whereas, this order shall be published for the information of the general public in the official gazette and by affixing a copy on the notice board of this office.

04. And whereas, the concerned civic agency and road maintaining agency shall erect the sign boards, indicating the designated site and shall also make proper markings as auto stands for "Halt & Go", for five auto rickshaws at a time.

05. Now therefore, this order shall come into force with effect from **01.08.2018**.

Given under my hand and seal on the 1st day of August, 2018.

K. MAHESH, District Magistrate (East)